

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2013/अग्रहायण 7, 1935

No. 311]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2013/AGRAHAYANA 7, 1935

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

फा. सं. 9/1/2013-सा.अ.—संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनःसमायोजन (तृतीय) अध्यादेश, 2013 (2013 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, जनगणना आयुक्त एतद्वारा आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में भारत की जनगणना, 2001 में नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3), (4) और (5) में जनसंख्या आंकड़ों के रूप में क्रमशः कुल जनसंख्या, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को तथा इसके कॉलम (6) और (7) में यथाउल्लिखित अनुसार इन राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के रूप में जनसंख्या आंकड़ों [धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्राप्त एवं निर्धारित किए गए अनुसार] को अधिसूचित करते हैं।

तालिका

राज्य कोड सं.	राज्य	राज्य की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या	राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात	
					अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	आन्ध्र प्रदेश	76210007	12349873	5071058	16.2	6.7
18	असम	26655528	1825949	3485614	6.9	13.1
10	बिहार	82998509	13245922	929984	16.0	1.1
24	गुजरात	50671017	3617789	8563435	7.1	16.9
20	झारखण्ड	26945829	3189320	7136883	11.8	26.5
29	कर्नाटक	52850562	8890783	3470943	16.8	6.6
32	केरल	31841374	3074693	467396	9.7	1.5
21	ओडिशा	36804660	6086776	8305420	16.5	22.6
19	पश्चिम बंगाल	80176197	18724699	4557351	23.4	5.7

टिप्पण : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े 2001 की जनगणना के अनुसार हैं जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) के उपबंधों के तहत तैयार किया गया था।

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

[विज्ञापन III/4/असा./201/13]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2013

F. No. 9/1/2013-SS.—In pursuance of sub-section (3) of Section 3 of the Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies (Third) Ordinance, 2013 (10 of 2013), the Census Commissioner hereby notifies the population figures mentioned in columns (3), (4) and (5) of the Table below [as ascertained and determined under sub-section (2) of the Section 3] as the population figures respectively of the total population, the population of the Scheduled Castes and the population of the Scheduled Tribes at the Census held in India in 2001 in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Odisha and West Bengal and the proportion of the population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes respectively to the total population of those States as mentioned in columns (6) and (7) thereof.

TABLE

State Code No	State	Total Population of the State	Total Population of Scheduled Castes	Total Population of Scheduled Tribes	Proportion of the population of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to the Total Population of the State	
					Scheduled Castes	Scheduled Tribes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Andhra Pradesh	76210007	12349873	5071058	16.2	6.7
18	Assam	26655528	1825949	3485614	6.9	13.1
10	Bihar	82998509	13245922	929984	16.0	1.1
24	Gujarat	50671017	3617789	8563435	7.1	16.9
20	Jharkhand	26945829	3189320	7136883	11.8	26.5
29	Karnataka	52850562	8890783	3470943	16.8	6.6
32	Kerala	31841374	3074693	467396	9.7	1.5
21	Odisha	36804660	6086776	8305420	16.5	22.6
19	West Bengal	80176197	18724699	4557351	23.4	5.7

Note : The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes population figures are as per 2001 Census which were prepared under the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (10 of 2003).

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

[ADVT. III/4/Exty./201/13]